



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-12072025-264586  
CG-DL-W-12072025-264586

साप्ताहिक/WEEKLY  
प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 28] नई दिल्ली, शनिवार, जुलाई 12—जुलाई 18, 2025 (आषाढ़ 21, 1947)  
No. 28] NEW DELHI, SATURDAY, JULY 12—JULY 18, 2025 (ASADHA 21, 1947)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।  
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

### विषय-सूची

	पृष्ठ सं.		पृष्ठ सं.
भाग I—खण्ड-1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं.....	349	छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं.....	*
भाग I—खण्ड-2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.....	603	भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिसमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं).....	*
भाग I—खण्ड-3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.....	7	भाग II—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश.....	*
भाग I—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.....	3975	भाग III—खण्ड-1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं.....	2469
भाग II—खण्ड-1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम.....	*	भाग III—खण्ड-2—पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेंटों और डिजाइनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं और नोटिस.....	*
भाग II—खण्ड-1क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ.....	*	भाग III—खण्ड-3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं.....	*
भाग II—खण्ड-2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट.....	*	भाग III—खण्ड-4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं.....	1
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं).....	*	भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस.....	3417
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को		भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाला सम्पूरक.....	*

\*आंकड़े प्राप्त नहीं हुए।

## CONTENTS

	Page No.		Page No.
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court .....	349	(other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) ....	*
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court .....	603	PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than Administration of Union Territories) .....	*
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence.....	7	PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence .....	*
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence .....	3975	PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India .....	2469
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations.....	*	PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs .....	*
PART II—SECTION 1A—Authoritative texts in Hindi language, of Acts, Ordinances and Regulations .....	*	PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners .....	*
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills .....	*	PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies .....	1
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws, etc. of general character) issued by the Ministry of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) .....	*	PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies .....	3417
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India		PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi .....	*

\*Folios not received.

## भाग I—खण्ड 1

## [PART I—SECTION 1]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं]

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

शिक्षा मंत्रालय  
(उच्चतर शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 2 जुलाई 2025

सं. 10-8/2017-यू.3(ए)—जबकि, भारतीय विदेश व्यापार संस्थान (आईआईएफटी), नई दिल्ली को यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत यूजीसी की सलाह पर दिनांक 20.05.2002 की अधिसूचना संख्या 9-31/2001-यू.3(ए) के तहत केन्द्र सरकार द्वारा एक सम विश्वविद्यालय संस्थान घोषित किया गया था।

2. और जबकि, यूजीसी ने सम विश्वविद्यालयों को विनियमित करने के लिए यूजीसी (सम विश्वविद्यालय संस्थान) विनियम, 2023 को अधिसूचित किया। यूजीसी विनियम, 2023 के खंड 8 (7) में प्रावधान है कि विशेषज्ञ समिति की सलाह के आधार पर आयोग सरकार को सलाह देगा कि वह इन विनियमों के लागू होने से पहले संचालित किसी भी ऑफ-कैंपस को अनुमोदन देने पर मामला दर मामला आधार पर विचार करे और यदि वे ऑफ-कैंपस केंद्र शुरू करने के लिए अपेक्षित बुनियादी पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं, प्रत्येक कार्यक्रम में उत्तीर्ण छात्रों की डिग्री को मान्य करे।

3. और जबकि, यूजीसी ने दिनांक 17.06.2025 के पत्र के माध्यम से सूचित किया कि काकीनाडा में आईआईएफटी, नई दिल्ली का ऑफ कैंपस वर्ष 2022 से ही कार्यरत है। इसलिए, आईआईएफटी, नई दिल्ली द्वारा पहले से प्रस्तुत प्रस्ताव (नए प्रस्ताव की कोई आवश्यकता नहीं) की यूजीसी विनियम, 2023 के खंड 8(7) के अनुसार एक विशेषज्ञ समिति के माध्यम से जांच की गई थी। समिति ने समग्र मूल्यांकन के बाद सिफारिश किया कि यूजीसी शिक्षा मंत्रालय को सलाह दे सकता है कि यदि यह समिति द्वारा उल्लिखित कमियों का सुधार करता है तो काकीनाडा में आईआईएफटी, नई दिल्ली के ऑफ-कैंपस को कार्योत्तर अनुमोदन और वर्ष 2022-23 से उत्तीर्ण छात्रों की डिग्री के सत्यापन पर विचार किया जा सकता है। समिति की सिफारिशों को आयोग द्वारा दिनांक 27.08.2024 को हुई अपनी 583वीं बैठक (मद संख्या 2.03) में अनुमोदित किया गया था। इसके अलावा, यूजीसी ने दिनांक 19.09.2024 के पत्र के माध्यम से संस्थान से अनुरोध किया कि विशेषज्ञ समिति द्वारा बताई गई शर्तों के संबंध में अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

4. और इसके अलावा जबकि, संस्थान द्वारा प्रस्तुत अनुपालन रिपोर्ट को विशेषज्ञ समिति के समक्ष विचारार्थ रखा गया। विशेषज्ञ समिति ने संस्थान द्वारा प्रस्तुत अनुपालन रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया। दिनांक 14.05.2025 को हुई आयोग की 590वीं बैठक (मद संख्या 2.08) के समक्ष पूरा मामला प्रस्तुत किया गया। आयोग ने यूजीसी की विशेषज्ञ समिति की सिफारिश पर विचार किया और उसे अनुमोदित किया।

5. अब, इसलिए, यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, शिक्षा मंत्रालय, एतद्वारा यूजीसी की सलाह पर, भारतीय विदेश व्यापार संस्थान (आईआईएफटी) (सम विश्वविद्यालय), नई दिल्ली को वर्ष 2022 से काकीनाडा, आंध्र प्रदेश में एक ऑफ-कैंपस शुरू करने हेतु कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान करता है।

6. इस मंत्रालय की पूर्व अधिसूचनाओं तथा समय-समय पर जारी यूजीसी और अन्य सांविधिक परिषदों के नियमों/विनियमों में उल्लिखित अन्य सभी शर्तों का आईआईएफटी, नई दिल्ली द्वारा पालन किया जाना जारी रहेगा।

इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

पूर्णंदु किशोर बनर्जी  
संयुक्त सचिव

MINISTRY OF EDUCATION  
(DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION)

New Delhi, the 2nd July 2025

No. 10-8/2017-U.3(A)—Whereas, Indian Institute of Foreign Trade (IIFT), New Delhi was declared as an Institution deemed to be University by the Central Government, vide Notification No.9-31/2001-U.3(A) dated 20.05.2002, on the advice of UGC, under Section 3 of the UGC Act, 1956.

2. And whereas, UGC notified the UGC (Institutions deemed to be Universities) Regulations, 2023 to regulate the deemed to be Universities. Clause 8 (7) of the UGC Regulations, 2023 provides that on the basis of the advice of the Expert Committee, the Commission shall render its advice to the Government to consider the approval of any such off-campus which was operating before the commencement of these regulations on a case-to-case basis, and to validate the degrees of each programme for the passed-out students, if they fulfil the basic eligibility conditions required for starting the off-campus centre.

3. And whereas, UGC, vide letter dated 17.06.2025, informed that the off campus of IIFT, New Delhi at Kakinada is already functional from 2022. Therefore, the proposal already submitted by IIFT, New Delhi (no requirement of fresh proposal) was examined through an Expert Committee as per Clause 8(7) of UGC Regulations, 2023. The Committee, after overall assessment, recommended that the UGC may advise the Ministry of Education that ex-post facto approval for the off-campus of the IIFT, New Delhi at Kakinada and validation of the degrees of the students passed out from 2022-23 may be considered, if it rectifies the deficiencies pointed out by the committee. The recommendations were approved by the Commission in its 583<sup>rd</sup> meeting (Item No. 2.03) held on 27.08.2024. Further, UGC, vide letter dated 19.09.2024, requested the Institution to submit compliance report in respect of the conditions pointed by the Expert Committee.

4. And further whereas, the compliance report submitted by the Institution was placed before the Expert Committee for consideration. The Expert Committee accepted the compliance report submitted by the Institution. The entire matter was placed before the Commission in its 590<sup>th</sup> meeting (Item No. 2.08) held on 14.05.2025. The Commission considered and approved the recommendation of the UGC Expert Committee.

5. Now, therefore, in exercise of the powers conferred under Section 3 of the UGC Act, 1956, the Ministry of Education, on the advice of UGC, hereby accords ex-post facto approval to Indian Institute of Foreign Trade (IIFT) (deemed to be University), New Delhi for starting an off-campus at Kakinada, Andhra Pradesh w.e.f. the year 2022.

6. All other conditions mentioned in the earlier Notification(s) of this Ministry as well as the Rules / Regulations of UGC and other Statutory Councils, issued from time to time, shall continue to be adhered by IIFT, New Delhi.

This issues with the approval of Competent Authority.

PURNENDU KISHORE BANERJEE  
Joint Secretary